

**METALLURGICAL ENGINEERING DEPARTMENT**

**धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग**

हमारे संदर्भ: एमटीडी 25/टी

दिनांक 28-03-2018

**Subject: Reaffirmation of Indian Standards pertaining to Powder Metallurgical Materials and Products Sectional Committee, MTD 25**

**विषय: भारतीय मानक की पुनः चूर्ण धातुकर्मी समिग्रिया एवं वस्तुओ से सबधित विषय समिति से संबंधित समिति, एमटीडी 25**

The following Indian Standards have been reaffirmed during the month of March 2018 by the Powder Metallurgical Materials and Products Sectional Committee, MTD 25 for a further period of five years from their due date:

निम्नलिखित भारतीय मानक चूर्ण धातुकर्मी समिग्रिया एवं वस्तुओ से सबधित विषय से संबंधित समिति, एमटीडी 25 अपने नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे के दौरान की पुष्टि मार्च 2018 में की गई है:

| <i>IS No.</i>           | <i>Title</i>                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS 4857 : 2005          | Metallic powders,excluding powders for hardmetals - Determination of compactibility (compressibility) in uniaxial compression       |
| IS 5644 : Part 2 : 2005 | Metallic Powders - determination of Oxygen Content by Reduction Methods - Part 2 Loss of mass on hydrogen reduction (hydrogen loss) |
| IS 5644 : Part 3 : 2005 | Metallic Powders - determination of Oxygen Content by Reduction Methods - Part 3 Hydrogen - Reducible oxygen                        |
| IS 7512 : 2006          | Method for the determination of average particle size of metal powders by fisher sub-sieve sizer                                    |
| IS 8871 : 2004          | Metallic Powders - Determination of tap density                                                                                     |
| IS 11506 : 2004         | Lubricated metal-powder mixes - Determination of lubricant content - Modified Soxhlet extraction method                             |
| IS 12279 : 2005         | Method for determination of transverse rupture strength of sintered metal materials (excluding hardmetals)                          |
| IS 15554 : 2004         | Sintered Metal Materials, Excluding Hardmetals - Tensile Test Pieces                                                                |
| IS 15567 : 2005         | Sintered Metal Materials, Excluding Hardmetals - Gatigue Test Pieces                                                                |
| IS 15574 : 2005         | Sintered Metal Materials, excluding Hard metals - Unnotched Impact Test Piece                                                       |
| IS 15585 : 2005         | Sintered Metal Materials                                                                                                            |
| IS 15703 : 2006         | Sintered metal materials, excluding hardmetals - determination of apparent hardness and microhardness                               |

निदेशक (बिक्री) /प्रमुख (प्रकाशन)/ प्रमुख (पुस्तकालय) से अनुरोध है कि वे उपरोक्त भारतीय मानकों पर पुनः पुष्टिकरण के वर्ष की स्थापना के लिए उचित कार्यवाही करें।

Director (Sales) / H (Pub)/ H (LSC) may kindly take suitable action for affixing the year of reaffirmation to the above mentioned standard

(एन. सूर्यनारायण) (N. Suryanarayana)

वैज्ञानिक 'ई' प्रमुख (धातुकर्म इंजी.) Scientist 'E' & Head (MTD)

निदेशक (बिक्री)/D(Sales)

प्रमुख (प्रकाशन)/H(Pub)

प्रमुख (पुस्तकालय)/H(LSC)

Copy to: i) All Departments and Offices of BIS (by mail)  
ii) ITS: with the request to host on the intranet

